



हवा के नाम पर लोगों की जेब ठंडी करने वाला दबोचा

- मेरठ का रहने वाला है शातिर लंबे समय से कर रहा था ठगी
- शातिर कई राज्यों में इस प्रकार के अपराध को दे चुका है अंजाम
- वादी कक्षा 7 वी तक ही पढ़ा है, गांव के दोस्तों से सीखी ठगी
- लगभग दो साल से वेबसाइट द्वारा ठगी का काम कर रहा है
- क्राइम ब्रांच ने मेरठ के अजराड़ा थाना मुंडाली से किया अरेस्ट
- DTDC कोरियर कंपनी की स्लिप देता था ताकि किसी को शक न हो
- जालसाज फेसबुक आईडी बनाकर उस पर भी देता था लोगों को ऑफर
- वाट्सएप पर स्टेटस के रूप में लगाता था इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को
- बाजार से कम कीमत पर सामान ऑर्डर करने के नाम पर लालच

कानपुर: लोगों को कूलर की हवा खिलाने के नाम पर उनकी जेब ठंडी करने वाले शातिर को क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने दबोच लिया है। अभियुक्त लोगों को वेबसाइट, फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के द्वारा अच्छी कंपनी के कूलर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर भारी छूट व आफर देता था। झांसे में आकर लोग अच्छी खासी रकम शातिर के हवाले कर देते। पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच श्री सलमान ताज व अपर पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच श्री मनीष सोनकर के कुशल निर्देशन में थाना बर्ग क्षेत्र में हुए ठगी के एक मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम ने शातिर को मेरठ से दबोचा है।

थाना बर्ग में रनवीर सिंह भदौरिया पुत्र जयदेव सिंह निवासी म0न0 127/233 बर्ग भाग 2 पर अपने साथ हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 609/2022 धारा 420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया। जिसकी जांच थाना बर्ग से साइबर सेल को भेजी गई। वादी शादी विवाह समारोह में डेकोरेशन का कार्य करता है। वादी को अपने व्यवसाय के लिए कूलर की आवश्यकता थी। तभी अप्रैल माह में वादी को फेसबुक पर कूलर विक्रय का आफर दिखा जिसके बाद वादी ने अभियुक्त को फेसबुक से सम्पर्क किया तथा अभियुक्त के वाट्सअप पर मैसेज किया। इसके बाद चार कूलर 72 हजार रुपये में तय किये। 36 हजार रुपये पहले दे दिये बाकी पैसे कूलर आने के बाद देने थे। शातिर ने डीटीडीसी की स्लिप भेजी और बहाने बनाकर पूरा पैसा ले लिया और इसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। साइबर सेल द्वारा

प्रकरण की गम्भीरता पूर्वक जाँच की गयी तथा अभियुक्त को जनपद मेरठ से थाना मुंडाली क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार किया गया।

इस प्रकार करता था ठगी

शातिर अभियुक्त विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रोडक्ट को अपने स्टेटस पर लगाता है तथा विक्रय हेतु बहुत कम धनराशि में उपलब्ध कराने हेतु बताता है अपना व्हाट्सएप नंबर उसी अपने फेसबुक स्टेटस शेयर करता है जिससे लोग लालच में आकर जालसाज के पास उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं जिसके बाद जालसाज उन्हें व्हाट्सएप पर ही उन प्रोडक्ट के फोटो शेयर करता है जिसके बाद वहीं से प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए PhonePe/ Paytm/ UPI के माध्यम से फर्स्ट पेमेंट लेता है पेमेंट लेने के बाद पीड़ितों को एक फर्जी कोरियर की स्लिप शेयर करता है तथा एक-दो दिन बाद में फोन कर कोरियर के नाम पर आधे पैसे लेता है और इस प्रकार आगे की बाकी पेमेंट करवाता रहता था। फेसबुक पर एडवरटाइजिंग मैसेज A R CORPET MATT पर आए विज्ञापन जोकि कूलर आदि से संबंधित है जिसमें कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर दिए गए थे। बाजार से कम कीमत पर सामान ऑर्डर करने के नाम पर लालच देकर ऑर्डर लेने से संबंधित है

अभियुक्त का नाम – अनश पुत्र शहनवाज निवासी ग्राम अजराडा थाना मुंडाली जनपद मेरठ ।

बरामदगी– दो मोबाईल

गिरफ्तारी करने वाली टीम-उप निरीक्षक यतीश सिंह, हेड कॉन्स्टेबल राहुल पांडेय, HC अब्दुल सालिम, का0 विजय मौर्य